



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1
PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 57]
No. 57]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 5, 1977/अश्विन 13, 1899
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 1977/ASVINA 13, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(Department of Agriculture)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October 1977

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 61 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, being of the opinion that it is expedient so to do, hereby makes the following alterations in the Schedules to the said Act, namely —

1 In Schedule I to the said Act,—

(a) in Part I—

(i) entry 1 shall be renumbered as entry 1A and before entry 1A as so renumbered, entry 1 from Schedule III shall be transferred as entry 1

(ii) after entry 3 entry 4 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 3A;

(iii) after entry 5A entry 4 of Schedule III shall be transferred as entry 5B;

(iv) after entry 6, entry 1 in Schedule IV shall be transferred as entry 6A;

(v) after entry 8, entry 6 in Schedule III and entries 6 and 8 in Schedule II shall respectively be transferred as entries 8A, 8B and 8C;

(vi) after entry 10, entry 10 in Schedule III shall be transferred as entry 10A.

(vi) after entry 12A, entry 13 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 12B;

(vii) after entry 16, entry 1 in Part II of Schedule II shall be transferred as entry 16A,

(ix) after entry 22, entry 15 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 22A;

(x) after entry 24, entry 13 in Schedule III shall be transferred as entry 24A;

(xi) after entry 25, entry 3 in Part II of Schedule II shall be transferred as entry 25A;

(xii) after entry 31, entry 18 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 31A;

(xiii) after entry 31A, entry 17 in Schedule III shall be transferred as entry 31B,

(xiv) after entry 36, entry 20 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 36A;

(xv) after entry 41, entry 23 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 41A;

(b) in Part—II,—

(i) entry 1 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 1;

(ii) after entry 14, entry 17 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 14A;

(iii) after entry 17, entry 21 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 17A;

2 In Schedule—II to the said Act,—

(a) in Part—I,—

(i) after entry 3A, entry 8 in Schedule III shall be transferred as entry 3B;

(b) in Part—II,—

(i) entry 9 in Part I of Schedule II shall be transferred as entry 1;

(ii) entry 2 shall be renumbered as entry 3 and before entry 3 as so renumbered, entry 10 from Part I of Schedule II shall be transferred as entry 2,

(iii) after entry 3, entry 7 in Schedule IV shall be transferred as entry 4;

3. In Schedule—IV to the said Act,—

(i) entry 1A shall be renumbered as entry 1 and after entry 1 as so renumbered, entry 2 from Schedule V shall be transferred as entry 1A;

(ii) after entry 3, the following entry shall be inserted, namely:—

“3A. Five striped palm squirrel (*Funambulus pennanti*)”,

(iii) after entry 4C, entry 4 in Schedule V shall be transferred as entry 4D;

(v) after entry 4D, the following entry shall be inserted, namely:—

“Indian Porcupine (*Hystrix indica*)”;

(v) after entry 6, the following entry shall be inserted, namely:—

“6A. Mongooses (all species of genus *Herpestes*)”;

(vi) after entry 7, the following entry shall be inserted, namely:—

“7A. Pole cats (*Vormela peregusna*, *Mustela putorius*)”;

(vii) after entry 8, the following entry shall be inserted, namely:—

“8A Red fox (*Vulpes montana*, *Vulpes griffithi* and *Vulpes pusilla*)”;

(viii) after entry 9, the following entry shall be inserted, namely:—

“9A. Small travancore flying squirrel (*Petinomys fuscocapillus*)”;

(ix) in entry 11,—

(a) after item (ii), the following items shall be inserted, namely:—

“(iia) Avocots (*Recurvirostridae*).

(iib) Bitterns (*Ardeidae*)”;

(b) after item (iii), the following items shall be inserted, namely:—

“(iia) Bulbuls (*Pycnotidae*).

(iib) Bunting (*Emberizidae*)”;

(c) after item (vi), the following items shall be inserted, namely:—

“(via) Coots (*Rallidae*).

(vib) Cormorants (*Phalacrocoracidae*)”;

(d) after item (vii), the following items shall be inserted, namely:—

“(viiia) Cuckoos (*Cuculidae*).

(viib) Curlew (*Burhinidae*)

(viic) Darters (*Phalacrocoracidae*).

(viid) Drongos (*Dicruridae*).

(vile) Doves (*Columbidae*)”;

(e) after item (viii), the following items shall be inserted, namely:—

“(viiia) Egrets (*Ardeidae*)

(viiib) Flower pecker (*Dicaeidae*)”;

(f) after item (xv), the following shall be inserted, namely:—

“(xva) Grebes (*Podicipitidae*)”;

(g) after item (xvii), the following items shall be inserted, namely:—

“(xviiia) Herons (Ardeidae)
(xviiib) Ibis (Threskiornithidae)”,

(h) after item (xix), the following entry shall be inserted, namely:—

“(xixia) Jacanas (Jacanidae)”,

(i) after item (xx), the following items shall be inserted, namely:—

“(xxa) Kingfishers (Alcedinidae).
(xxb) Larks (Alaudidae)”,

(j) after item (xxii), the following items shall be inserted, namely:—

“(xxiia) Munias (Ploceidae)
(xxiib) Mynas (Sturnidae)
(xxiic) Nightjar (Caprimulgidae)”,

(k) after item (xxv), the following items shall be inserted, namely:—

“(xxva) Parrots (Psittasidae)”,

(l) after item (xxxi), the following item shall be inserted, namely:—

“(xxxia) Rollers (Coraciidae)”,

(m) after item (xxxiii), the following items shall be inserted, namely:—

“(xxxiiia) Starling (Sturnidae)
(xxxiiib) Storks (Ciconiidae)
(xxxiiic) Stilt (Recurvirostridae)”,

(n) after (xxxv), the following entry shall be inserted, namely:—

“(xxxva) Tree pies (Corvidae)
(xxxvb) Tits (Paridae)
(xxxvc) Vulture (Accipitridae)”,

(o) after item (xxxvi), the following items shall be inserted, namely:—

“(xxxvix) Weaver birds (Ploecidae)
(xxxvib) White eye (Zosteropidae)
(xxxvic) Wood peckers (Picidae)”,

(p) after entry 11 and the items relating thereto, the following entry shall be inserted, namely:—

“12. Snakes (Typhlopidae, Glauconidae, Uropeltidae, Hysudae, Xenopeltidae, Boidae, Amblycephalidae, Viperidae, Colubridae”.

[No. J 11012/31/76-FRY(WL)]

N D. JAYAL,
Jt Secretary

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1977

वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 61 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियाँ का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार अपनी यह राय होने पर कि ऐसा करना समीचीन है, उक्त अधिनियम की अनुसूचियों में निम्नलिखित परिवर्तन करती है, अर्थात् —

1. उक्त अधिनियम की अनुसूची —1 में,—

(क) भाग 1 में,—

- (i) प्रविष्टि 1 को प्रविष्टि 1क के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित प्रविष्टि 1क से पूर्व, प्रविष्टि 1 के रूप में, अनुसूची 3 से प्रविष्टि 1 स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (ii) प्रविष्टि 3 के पश्चात्, प्रविष्टि 3 के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 4, स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (iii) प्रविष्टि 5क के पश्चात्, प्रविष्टि 5ख के रूप में, अनुसूची 3 की प्रविष्टि 4 स्थानान्तरित की जाएगी ,
- (iv) प्रविष्टि 6 के पश्चात्, प्रविष्टि 6क के रूप में, अनुसूची 4 की प्रविष्टि 1 स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (v) प्रविष्टि 8 के पश्चात्, प्रविष्टि 8 क, 8 ख तथा 8 ग के रूप में अनुसूची 3 की प्रविष्टि 6 तथा अनुसूची 2 की प्रविष्टि 6 और 8 क्रमशः स्थानान्तरित की जाएगी ,
- (vi) प्रविष्टि 10 के पश्चात्, प्रविष्टि 10क के रूप में, अनुसूची 3 की प्रविष्टि 10 स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (vii) प्रविष्टि 12क के पश्चात्, प्रविष्टि 12 ख के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 13 स्थानान्तरित की जाएगी ,
- (viii) प्रविष्टि 16 के पश्चात्, प्रविष्टि 16 क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 2 की प्रविष्टि 1 स्थानान्तरित की जाएगी ,
- (ix) प्रविष्टि 22 के पश्चात्, प्रविष्टि 22क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 15 स्थानान्तरित की जाएगी ,
- (x) प्रविष्टि 24 के पश्चात्, प्रविष्टि 24 क के रूप में, अनुसूची 3 की प्रविष्टि 13 स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (xi) प्रविष्टि 25 के पश्चात्, प्रविष्टि 25 क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 2 की प्रविष्टि 3 स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (xii) प्रविष्टि 31 के पश्चात्, प्रविष्टि 31 क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 18 स्थानान्तरित की जाएगी ,
- (xiii) प्रविष्टि 31 क के पश्चात्, प्रविष्टि 31ख के रूप में अनुसूची 3 की प्रविष्टि स्थानान्तरित की जाएगी ;
- (xiv) प्रविष्टि 36 के पश्चात्, प्रविष्टि 36 क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 20 स्थानान्तरित की जाएगी ;

(xv) प्रविष्टि 41 के पश्चात्, प्रविष्टि 41 क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 23 स्थानांतरित की जाएगी ;

(ख) भाग-2 में,

- (i) अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 1 के रूप में स्थानांतरित किया जाएगा ,
- () प्रविष्टि 14 के पश्चात्, प्रविष्टि 14 क के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 17 स्थानांतरित की जाएगी ,
- (iii) प्रविष्टि 17 के पश्चात्, प्रविष्टि 17 क के रूप में अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 21 स्थानांतरित की जाएगी ;

2. उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 में—

(क) भाग 1 में—

- (i) प्रविष्टि 3क के पश्चात्, प्रविष्टि 3 ख के रूप में अनुसूची 3 की प्रविष्टि 8 स्थानांतरित की जाएगी ,

(ख) भाग 2 में —

- (i) अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 9 को प्रविष्टि 1 के रूप में, स्थानांतरित किया जाएगा ;
- (ii) प्रविष्टि 2 को प्रविष्टि 3 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि 3 के पूर्व प्रविष्टि 2 के रूप में, अनुसूची 2 के भाग 1 की प्रविष्टि 10 स्थानांतरित की जाएगी ;
- (iii) प्रविष्टि 3 के पश्चात्, प्रविष्टि 4 के रूप में अनुसूची 4 की प्रविष्टि 7 स्थानांतरित की जाएगी ;

3. उक्त अधिनियम की अनुसूची 4 में—

- (i) प्रविष्टि 1क को प्रविष्टि 1 के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्यांकित प्रविष्टि 1 के पश्चात् प्रविष्टि 1 क के रूप में अनुसूची 5 की प्रविष्टि 2 स्थानांतरित की जाएगी ;
- (ii) प्रविष्टि 3 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् “3क. पाच धारीदार नाड गिलहरियां (फ्यूनाम्बुलस प्रेब्रान्टी)” ;
- (iii) प्रविष्टि 4ग के पश्चात्, प्रविष्टि 4घ के रूप में, अनुसूची 5 की प्रविष्टि 4 स्थानांतरित की जाएगी ;
- (iv) प्रविष्टि 4 घ के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्—

“भारतीय साही (हिस्ट्रिक्स इण्डिका)” ;

- (v) प्रविष्टि 6 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् “6क नेबले (जीनस हरपेस्टेस की सभी किस्में)” ;
- (vi) प्रविष्टि 7 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् — “7क. ध्रुवीय बिल्वया (बोरमेला पेरेगुसना, माटेला, प्यूटोरियस)” ;
- (vii) प्रविष्टि 8 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् “8क. लाल लोमड़ी (बल्पेस मोनटाना बल्पेस त्रिफियी और बल्पेस पुसिल्ला)” ;
- (viii) प्रविष्टि 9 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् “9क स्माल ट्रावर्कार वाइग रिक्वरल (पेटोनोमिस फस्कोकैपिलस)” ;

(ix) प्रविष्टि 11 में, —

(क) मद सं० 2 के पश्चात्, निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“(2क) पबोकाटम (रिकरविरोस्ट्राडडे)

(2ख) तिनलोवा (अईयडे)

(ख) मद (3) के पश्चात्, निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

“(3क) बुलबुल (पिकनोटाडडे)”

(3ख) भारीट (इम्बेरीजाइडे) ” ;

(ग) मद (6) के पश्चात्, निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“(6क) पनडुश्चिया (रल्लीडे)

(6ख) पनकौअम (फालाओकारसाइडी) ” ;

(घ) मद (7) के पश्चात्, निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् .—

“(7क) कोयल (स्विलिडे)

(7ख) पनभुर्गी (बग्रहिनिडे)

(7ग) डार्टर (फालाओकोरासाइडे)

(7घ) इन्गोज (डाइकूरिडे)

(7ङ) बत्तख (कोलम्बाइडे) ” ;

(ङ) मद (8) के पश्चात् निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(8क) गोखरू (अडेईडे)

(8ख) फ्लावर पेकर (डाइकाएडे) ” ,

(च) मद (15) के पश्चात् निम्नलिखित मद अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“(15क) बज्जुल (पोडीसिपाइटाइडे) ” ,

(छ) मद (17) के पश्चात् निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“(17क) सारस (अडेईडे)

(17ख) आईबिस. (येशकिआनीथाइडे) ” ,

(ज) मद (19) के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“(19क) जल कमीत (जकानाइडे) ” ,

(झ) मद (20) के पश्चात् निम्नलिखित मदे अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् —

“(20क) राम चिरैया (अल्सीडाइनाइडे)

(20ख) लवा (अलाउडाइडे) ” ,

(ज) मद (22) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“(22क) मुनिया (प्लोसीडे)

(22ख) मैना (स्टर्नाइडे)

(22ग) नपुत्रका (कैरी मल्गाइडे)”;

(ट) मद (25) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“(25क) तोते (मिट्टासाइडे)”,

(ठ) मद (31) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“(31क) नीलकण्ठ (कोरासाइडे)”;

(ड) मद (33) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“(33क) सारिका (स्टनीडे)

(33ख) सारस (साइकोनाइडे)

(33ग) टिटिम (रिक्कीरोस्ट्राइडे)”;

(३) मद (35) के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

(35क) ट्रो पाइज़ (कारवाइडे)

(35ख) टिट्स (पेरीडे)

(35ग) गीघ (एक्सीपाइट्रीडे)”;

(ण) मद (36) के पश्चात् निम्नलिखित मदें अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“(36क) बया (प्लोपाइडे)

(36ख) ब्लाइट आई (ओस्ट्रोपाइडे)

(36ग) कठफोडा (पाइसाइडे)”;

(I) प्रविष्टि 11 तथा उसमें सम्बन्धित मदों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् —

“(12). साप (टाइफ्लोपाइडे, ग्लाइकोनीडे, यूरोपेल्टाइडे, इलीसाइडे, ज़नोपेल्टाइडे, ब्याइडे, एम्बली कैफालाइडे, बाइपररोइडे, कोल्ब्राइडे)”,

[सं. जे० 11/12 31/76—एफ आर वार्ड (डब्ल्यू एल)]

न० घ० जयाल,

संयुक्त सचिव ।